

विधान सभा सचिवालय
मध्य प्रदेश
समाचार

जिज्ञासाओं से ही होता है अविष्कार जिज्ञासाएं कभी कम मत होने देना-श्री गौतम
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और विद्या प्राप्त करना आवश्यक
बाल दिवस पर नवदुनिया के "नन्हीं खुशियां" कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बच्चों से
किया संवाद।

भोपाल, दिनांक 14 नवंबर, 2022

बाल दिवस के अवसर पर नवदुनिया के सौजन्य से आयोजित "नन्हीं खुशियां" कार्यक्रम में आज विधान सभा सभागार में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में नवदुनिया द्वारा चयनित भोपाल की झुग्गी-बस्तियों के 50 स्कूली छात्र-छात्राओं ने अध्यक्ष श्री गौतम से भेंट की तथा एक-एक कर प्रश्न पूछे और गौतम ने उन प्रश्नों का बड़ी ही सहजता से बच्चों को उन्हीं के अंदाज में जवाब भी दिया। कार्यक्रम में श्री गौतम की पहल पहल पर अध्यक्ष की कुर्सी पर भोपाल के गांधीनगर की स्कूल छात्रा निधि अहिरवार को बैठाया गया। स्कूली बच्चों से भरे सभागार में मंच पर एक तरफ श्री गिरीश गौतम बीच में निधि अहिरवार और दूसरी तरफ विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए. पी. सिंह बैठे। अध्यक्ष श्री गौतम से बच्चों ने अपनी जिज्ञासाएं जाहिर कीं और प्रश्न पूछे। एक स्कूली छात्र पुनीत यादव ने श्री गौतम से पूछा कि, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? इस पर गौतम ने कहा कि दिन में सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प लो, तभी उसे हकीकत में बदल पाओगे। श्री गौतम ने कहा कि मैंने भी जनता के लिए कुछ बेहतर करने का स्वप्न देखा और राजनीति में आया, आंदोलन किए, 90 बार जेल गया, भूख हड़ताल की, चुनाव लड़ा, कई बार हारा, लेकिन हार नहीं मानी है। तब जाकर इस मुकाम तक पहुंचा और आज मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष हूं। पुनीत के एक अन्य प्रश्न पर कि कभी आपने अपने टीचर से मार खाई है, इस पर गौतम ने जवाब देते हुए कहा कि वह स्कूल में गुरुजन से एक बार नहीं कई बार पिटे, ताकि हम अच्छे से पढ़ें और कुछ नया सीखें। यह मार तो लाड प्यार की थी।

श्री गौतम ने कहा कि मुझे अपने क्षेत्र में अन्याय को देखकर विचार आया कि अब चुनाव लड़ना है। सन 1972 से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आज भी अपने क्षेत्र में साइकल से घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं और उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास करता हूं।

उन्होंने कहा कि जिज्ञासाओं से ही अविष्कार होता है। कभी अपनी जिज्ञासा कम मत होने देना। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा और विद्या प्राप्त करना आवश्यक है शिक्षा से एंपलाई बनते हैं और विद्या से एंपलॉयर। विद्या के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों ने पूछा विधानसभा में क्या होता है, इस पर श्री गौतम ने कहा कि विधानसभा में कानून बनते हैं मध्यप्रदेश की जनहितैषी योजनाओं के लिए बजट पास होता है और यहां से बजट आवंटन के बाद प्रदेश में विकास कार्य होते हैं।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर नवदुनिया के यूनिट हेड श्री मानवेंद्र द्विवेदी और राज्य ब्यूरो प्रमुख धनंजय प्रताप सिंह ने नवदुनिया टीम की ओर से विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम को स्मृति चिह्न भेंट किया और बच्चों के साथ ग्रुप तस्वीर ली। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री एपी सिंह भी उपस्थित रहे।

विस/जसं/22

नरेंद्र मिश्रा
अवर सचिव